

Plot No-87, Sector-32, Institutional Area, Gurugram Haryana -122001 (India) Phone: 191-0124-6925100

Web : www.jindalgroup.com

JPFL/DE-PT/SE/AGM/2023-24

The Manager, Listing National Stock Exchange Of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code: NSE: JINDALPOLY

Dated: 06th September 2023

The Manager Listing Bse Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Scrip Code :BSE: 500227

Sub: Newspaper Advertisement for dispatch of Notice of 49th Annual General Meeting (AGM) and e-voting and Book Closure information.

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read along with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"), please find enclosed herewith a copy of advertisement published on September 06, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) informing about completion of dispatch of Notice of the 49th Annual General Meeting, e-voting process and Book Closure related information.

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours Sincerely, For JINDAL POLY FILMS LIMITED

Vaishali Singh **COMPANY SECRETARY ACS-15108** Encl.: As above

Classifieds

PERSONAL

I.Varda Hamid,D/o Abdul Hamid, R/O H.No. 94, Johni Farm, Jamia Nagar, Noor-Nagar Extn.Okhla,New Delhi-110025, have changed my name to Warda Hamid, permanently.

0040687370-7

I,Satyavir Singh,S/o Saroop Singh, R/o H.No.291, Opp To Purani Chopal, Rani Khera, Delhi-110081, have changed my name to Satyavir Singh Dabas. 0040687375-10

I,Sanjeev Kumar S/o Om Prakash Chawla R/o H.No.5K-121.NIT Faridabad-121001. Haryana, have changed my name to Sanjeev Chawla, permanently.

0040687315-10

I.Rafeek Ahmad,S/o Moinudeen, R/o 90/A, Haddu Mohalla, Madanpur, Khadar, Sarita Vihar, New Delhi-110076, have changed my name to Mohammad Rafiq, permanently.

I.Pritam Kumar S/o Shailesh Kumar R/o,H.No.5A/64, Gali-No.19, Nangli Vihar,

Baprola, New Delhi-110043, that name of my-father has been wrongly-written as Shailesh Mahto in my Educational Documents. The actual-name of my-father is Shailesh Kumar.

0040687388-9

I,Payal W/o Surjeet Singh R/o 9/325, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Payal

0040687388-8

I.Kameshwar Sahu.S/o Somaru Sha,R/o B-40,Sahyog Vihar, Near Matiyala-Village, Uttam-Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Kameshwar Sha, permanently.

I Tejesvi Yadav S/o Ajay Yadav R/o-D-138II, Yamunapuram, Distt.-Bulandshahr (UP)-203001, have changed my name to Teiasvi Yadav for all purposes.

0070862795-1

I,BALWINDER CHHABRA W/o KAWAL JEET SINGH R/o-40, Ram, Nagar, Krishna Nagar H.O, Delhi-110051, declare that name of mine and my husband and my minor daughter has been wrongly written as BALWINDER KAUR, KAWALJEET SINGH and BALNEET KAUR in my minor daughter BALNEET KAUR CHHABRA aged,14,Years in her school records. The actual name of mine my husband and my minor daughter are BALWINDER CHHABRA, KAWAL JEET SINGH and BAL-

NEET KAUR CHHABRA 0040687370-10

PUBLIC NOTICE My client Mrs. Kulwinder Kaur alias Kulvind Kaur W/o Sh. Gurdev Singh R/o 113-B, DDA MIG Flats, Rajouri Garden, New Delhi 110027, do hereby notify for public at large imt. Kartar Kaur W/o S. Tarlok SinghR/o 11-I, DDA MIG Flats, Rajouri Garden, New Del 110027 after her death who Kartar Kaur expired on dated 15.04.2009 as per her wil deed made on date 27/05/2008, in favor of ner daughter-in-law Mrs. Kulwinder Kaur alia Kulvinder Kaur only, any person/s have any objection/claim(s) interest for the will deed registration of aforesaid will of Late Smt. Kartar Kaur W/o S. Tarlok Singh may conta the undersigned within 05 days from the publication of this notice, falling which the aim of any of such person will be conside to have been waived and/or abandoned and the will deed shall be registered and application with immediate effect.

Akshay (Advocate) (MOB NO-9999034619)

https://nseindia.com.

NOTICE INVITING TENDER

Ref No.: MPSEDC/P&A/2023/523 Dated: 05.09.2023 Online Tenders are invited for OPERATIONS MAINTENANCE OF 33 KV SUB STATION, ELECTRICAL INSTALLATIONS & DG SET AT MPSEDC OF FICES. BHOPAL. Interested eligible bidders can view/download the Tender Document on www.mptenders.gov.in. First time users of this portal will be required to register online with

> Project Director M.P. STATE ELECTRONIC DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

payment of registration charge.

State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.) Tel.: 0755-2518300/742

> Email: marketing@mpsedc.com website: www.mpsedc.mp.gov.in

M.P. Madhyam/111821/2023

JINDAL POLY FILMS LIMITED

[CIN No. L17111UP1974PLC003979] Registered Office -19th K.M Hapur Bulandshahr Road, PO Gulaothi, Distt. Bulandshahr (UP) Corporate Office: Plot No. 87,Institutional Area Sector-32, Gurugram, Haryana- 122001 Email id- cs_jpoly@Jindalgroup.com; Website- www.jindalpoly.com Telephone No: 0124-6925100, 0124-6570325

NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that 49th Annual General Meeting of JINDAL POLY FILMS LIMITED will be held on Friday, September 29, 2023 at 02:00 p.m. at Hotel Natraj, Kala Aam, Delhi Rd, Civil Lines, Bulandshahr, Uttar Pradesh 203001, to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 49th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, and rules framed thereunder(

Pursuant to provision of section 101 and 136 of the Act and rules made thereunder Regulation 36 of SEBI Listing Regulations and in terms of MCA Circulars and SEB Circulars. Notice of the 49th AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent by e-mail on **September 05**, **2023** through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories.

Further, Notice of the 49th AGM along with the Annual Report 2022-23 have been sent through Courier, to those members whose email addresses are not registered with the Company /Depositories, on September 05, 2023.

Members may note that the Notice of the $49^{ t h}$ AGM along with Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website https://www.jindalpoly.com/downloadreports, websites of the Stock Exchanges, i.e., Bombay Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com/

in respect of shares held in electronic form with the Depository through their depository participants and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32 Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal Hyderabad, Telangana-500032. As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies

Members who have not registered their email address are requested to register the same

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is providing to its shareholders the facility to cast their votes through remote e-voting $\,$ and voting at Venue of the 49 $^{ ext{ t h}}$ $\,$ AGM $\,$ on all the resolutions set forth in the Notice, the detailed procedure of which is provided in the instruction part of the Notice.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the said cut-off date i.e, Friday 22nd September 2023, may cast their vote electronically, in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the 49th AGM through the **remote e-voting** or voting through ballot/polling paper during the 49th AGM.

The remote e-voting facility shall commence from Tuesday, 26th September 2023 (9:00 A.M.) to Thursday, 28th September 2023 (5:00 P.M.), same shall be forthwith disabled by KFIN after expiry of the said period. Once the Member have cast their vote through remote e-voting, he will not be allowed to modify his vote subsequently. Members may attend the 49th AGM even after casting their vote by remote e-voting facility but shall not be entitled to cast their vote again during the 49th AGM. Those Members, who are present in the 49th AGM and have not cast their vote through

remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to avail the facility of voting through ballot/polling paper during the 49th AGM.

In case a person has become member of the company after dispatch of the 49thAGM notice but on or before the cutoff date for E-voting i.e. Friday, September 22, 2023, such members may obtain the user ID and Password by sending a request in such a manner as provided in instructions part of the Notice.

All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts thereof and the Statutory Registers, will be made available for inspection by the Company and as such the Members are requested to send an email to cs_ipoly@jindalgroup.com requesting for relevant documents

In case of any query/grievance relating to remote e-voting or voting through Ballot/polling paper at the 49th AGM, Members may refer to the help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://e-voting .kfintech.com (KFintech website) or contact D Suresh Babu, Senior Manager, KFin Technologies Private limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, , Financial District, Nankramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad 500-032 or send an email to einward.ris@kfintech.com or call on 1800 3094 001.

Notice is hereby given that in pursuance to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with Regulation 42 of Listing Regulations. the register of members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Friday 29th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

Book Closure

ISIN of the company is INE197D01010. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

> By order of the Board of Directors **Jindal Poly Films Limited**

Vaishali Singh Place: New Delhi **Company Secretary** Dated: 05th September 2023 ACS: 15108

PURAVANKARA LIMITED

(CIN: L45200KA1986PLC051571) Registered Office: No. 130/1, Ulsoor Road, Bangalore - 560 042 Tel: 080 2559 9000/4343999 Email: info@puravankara.com Website: www.puravankara.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Members of

Puravankara Limited will be held on Friday, 29th September 2023, at 02:00 P.M (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening AGM. The Company has already dispatched the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Notice convening AGM through electronic mode to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company and/ or Depositories in accordance with the Circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at https://www.puravankara.com/backend/ assets/uploads/investors_reports/f2d483df9292c614f1fc6c2b99ec1e84.pdf and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at http://www.evoting.nsdl.com Remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NDSL. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 22 September 2023 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Tuesday, 26th September 2023 at 9.00 a.m. IST and will end on Thursday, 28th September 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, the Shareholders may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NDSL thereafter. Those Shareholders who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cutoff date; may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. However, If he/she is already registered with NDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

In case of any queries, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members

and the e-voting user manual for members available in the 'Downloads' section of https://www.evoting.nsdl.com. You can also mail your queries to NSDL by sending an email to evoting@nsdl.co.in., or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and The details of the AGM are available on the website of the Company a

https://www.puravankara.com/backend/assets/uploads/investors reports/f2d483df9292c 614f1fc6c2b99ec1e84.pdf. NSDL at evoting@nsdl.co.in, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Date: 05.09.2023

(Sudip Chatterjee) Place: Bangalore **Company Secretary and Compliance Officer**

For Puravankara Limited

🞇 VIKAS ECŐTECH LTD. CIN: L65999DL1984PLC019465

Registered Office: 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 Tel No. 011 4314 4444 | Email: cs@vikasecotech.com Website: www.vikasecotech.com

Notice of Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the

members of Vikas EcotechLimited will be held on Friday, September 29, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM of the Company. Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice and Annual Report

of 38thAGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Tuesday, September 5, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikasecotech.com Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive).

Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 38th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 38thAGM of the Company In this regard, the members are hereby further notified that:

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the Annual General Meeting is September 22, 2023.

The remote E-voting period will commence from September 26, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2023 at 5:00 P.M.(IST). Remote E-voting shall

not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54orsend an

e-mail to ivote@bigshareonline.com A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in

you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at

https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22. For Vikas Ecotech Limited

Date: September 5, 2023 Place: New Delhi

Vikas Garg Managing Director (DIN: 00255413)

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी (म.प्र.)

क्र./115/मुख्य स्टोसं/2023-24

इंडियन बैंक

🛕 इलाहाबाद

निविदा आमंत्रण सूचना

कटनी, दिनांक :- 04/09/2023

नगरपालिक निगम अंतर्गत जेम के माध्यम से नलकुपों में स्थापित स्टार्टरों की रिपेरिंग हेतु सामग्री क्रय किया जाना है।। जिस हेत जेम पर निम्न विवरण अनसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी	क्रय सामग्री का विवरण	निविदा जारी होने की तिथि	निविदा की अंतिम तिथि
1.	BID No GEM/2023/B/ 3881838	Tubewell starter repairing item	04.09.2023	25.09.2023

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिक निगम, कटनी

NOTICE

RHL PROFILES LIMITED CIN: U27104UP1987PLC009209

Regd. Office:-Somani Bhawan, 51/27, Nayagani Kanpur-208001 Corporate Office: 4th Floor, 63/2, City Centre, The Mall, Kanpur-208001 Phone No.:- 9839146442 Email Id:- cs@rhlprofiles.com, Website: www.rhlprofiles.com

NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on Friday, 29th September, 2023 at 2:30 pm at City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote evoting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has ngaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 05.09.2023. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register

of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 22nd September 2023 shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023 at 9:30 a.m. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5:00 pm. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 28.09.2023. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company, & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company www.rhlprofiles.com & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any queries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and became member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, RHL Profiles Limited, 63/2, City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 9839146442 email: cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password. For RHL Profiles Limited

Place: Kanpur Date: 05.09.2023

Krishan Kr. Somani (Managing Director) DIN: 01414928

SAMRAT FORGINGS LIMITED

CIN: L28910PB1981PLC056444 Regd. Office: Village & P.O. Ghoļlu Majra, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali, Punjab - 140506 Ph: +91-9257240444, E-mail: info@samratforgings.com Website: www.samratforgings.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, the 30th day of September, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual means (OAVM) As per the General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021,21/2021dated14th December

2021,02/2022 dated 5th May,2022 and 10/2022 dated 28th December 2022 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and

SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023

issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the Companies are allowed to hold AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Hence the 42nd AGM of the Company is being held through VC / OAVM. Members attending the 42nd AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013. In accordance with the Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022 - 23 have been

sent on 5th September, 2023, to all the Members whose e-mail ID's

are registered with the Company / Depository Participants/RTA. The Annual Reportingluding Notice of AGM is also available on the website of the Company at https://samratforgings.com/wpcontent/uploads/2023/09/Annual Report 2022-23.pdf, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

The Company has engaged the services of Central Depository

and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.

Services (India) Limited ("CDSL") and providing to its Members the facility to exercise their right to vote at 42nd AGM by electronic means (remote e-voting). The remote e-voting facility shall commence on 27th September, 2023 at 9:00 AM and shall end on 29 th September, 2023 at 5:00 PM. The members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting through electronic means during the AGM is 23rd September, 2023. Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to vote, either through remote e-voting or through e-voting during the AGM. For details relating to remote e-voting and e-voting during the AGM and instructions for joining the AGM through VC / OAVM, please refer to the Notes forming part of the Notice of AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e.23rd September 2023,

may obtain User ID and password by sending a request at

queries relating to voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs)and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. Members holding shares in physical form and have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending copy of the following documents by e-mail to Company's Registrar and Share Transfer Agent Mas Services Limited at investor@masserv.com or to the

helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company's Registrar and

Share Transfer Agent at investor@masserv.com. In case of any

Company at sandeepsharma@samratforgings.com: a) A request letter in the prescribed Form ISR-1 (prescribed vide SEBI circular dated 03.11.2021) mentioned the relevant details such as name, folio number and complete address;

b) Scanned copy of Share Certificate (front and back);

 c) Self attested scanned copy of PAN card. Members holding shares in dematerialized form are requested to

register their email addresses with their Depository Participant (DP). Members are requested to update their address, bank account particulars and other details by submitting the required documents in this regard to the RTA of the Company in case of physical shares and to the respective depository participants in case of demat shares. The procedure in this regard and requisite forms/documents are available at the website of the Company and can be referred from there. Pursuant to Section 91of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from 26th September, 2023 to 30th September, 2023 (both days

The Board has not recommended any dividend for the Financial Year 2022-23. For Samrat Forgings Ltd Place: Derabassi

Date: 05.09.2023

inclusive) for the purpose of AGM.

(Sandeep Kumar) Company Secretary

Authorized Officer, Indian Bank



नोट : निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जेम पोर्टल पर उक्त बिड क्रमांक के माध्यम से देखी जा सकती है।

Indian Bank ALLAHABAD

ZONAL OFFICE GURGAON, Plot No. 16, IRCON Tower, 4th Floor, Sector-32, Gurugram-122003 Corporate office: 254-260, AVVAI shanmugam Salai, Royapettah Chennai-600014

Reserve Price Date and

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to

Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on below mentioned for recovery of dues. The specific details of the properties intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

S	Partners / Proprietor / Guarantor / Mortgagor / Director Hypothecator / Legal Heirs	Details of Immovable/ Movable Property/ies	PROPERTY ID	Amount of Secured Debt	Earnest Money Deposit Min Incremental Account		Date and Time of e-Auction	Name of Authorized Officer	encumbrance on property, if any known to Bank Not Known to Bank
1	2. Mr. Naveen Kumar S/o Mr. Surender Singh (Partner & Mortgagor)	Commercial Property (Western Part) M.C. Property ID No. 65C393U783, Khewat no 4662/ 4906, Khatoni no 5355, Khasra No. 7651//(2-2) situated at Main 12 Quarter Road Hisar , Haryana 125001, in the name of Mr. Naveen Kumar S/o Mr. Surender Singh measuring 200 Sq. Yds Possession Type - Symbolic		Rs. 88,16,808.00 as on 24.05.2023 plus further interest with agreed rate from 25.05.2023 & other charges till date of repayment	₹ 8.56 Lac	04-10-2023 (Time :- 10.00 A.M to 5.00 P.M)	11.10.2023 between 11.00 a.m. to 5.00 p.m. with unlimited extensions of 10 minutes each.	Rao	Not Known to Bank

For further details and Terms & Conditions, contact: 1. Akhilesh Kumar Jaiswal (Mobile No. 9198607029) 2. Sh. RAKESH SONI, Manager (Mobile No. 8107500880)

1. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in. 2. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com

financialexp.epapr.in

the purpose of Annual General Meeting of the Company.

and transparent manner.

and 022 - 2499 7000

Place: Chennai

Date: 05.09.2023

Pallavi Tongia, Company Secretary

By the order of Board of Directors

Date: 05-09-2023, Place: Gurgaon

Name of the Borrower /



PUBLIC NOTICE his is to notify the General Public that my Client Sh. Pradeep Kumar Sharma Smt. Pratibha Sharma w/o Sh Pradeep Kumar Sharma both R/o . Dg2/268-A, Vikaspuri, New Delhi-10018, have debarred and disowned their son Vaibhav Sharma and his wife Smt. Sunita Pandey from all their

any acts, deeds & things done by them Sd/- SANJAY KAPOOR Chamber No. 788, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

ubec at large are hereby informed that my cli-nt. Asha Wio Shri Sarjit R/o H. No. 133, Str

m Mr. Ravinder Singh & Smt. Murti Devi (a

2.05.2023; Along with taking a Loan from Sat

Built up Property Bearing no. 136-A/1, Area B1 so yds., Out of Khasra no. 345, Situated at Village o

nonda Gujran Khadar, In the abadi of Gali no. 2

amri, Illaqa Shahdara, Delhi-110053; said roperty is owned by Mr. Ravinder Singh vide

Notarized GPA, SPA (Regd. No. 10734), Notarized ATS, Will (Regd. No. 3455) dated 30.11.2005

cuted by Smt. Murti Devi in respect of sail

operty area 162.5 sq. yds., hereinafter referre

as "said property" The Papers regarding this roperty submitted to Satin Housing Finance

imited Along with Lost Doc. i.e. A. Original Sal Deed (Regd. No. 85) dt. 11.01.1968 executed b

nt. Saroopi in favour of Shri Dhiraj Singh,

espect of said property area 325 sq. yds.; B. Original Relinquishment Deed dt. 04.11.2009

secuted by 1. Shri Virendra Singh, 2. Sh avinder Singh, 3. Shri Bijender Singh and 4. Sh

tarvinder (sons) of Late Shri Dhiraj Singh in favou f Smt. Murti Devi Wlo Late Shri Dhiraj Singh i

respect of said property, duly regd. As doc. no. 845. Vol. no. 4214, on pages 45 to 49 on dt. 04.11.2009.

his documents has been lost somewhere for that thri Ravindra Singh alias Ravinder Singh Filed e-

5.09 2023 at Delhi Police, and it is not traceable.

dress mentioned below and If any person, wh as got, rights, interest, fille, claim, encumbrances

arges of any nature whatsoever in respect of the

ove said Property or any part thereof, can sen eir objections with their documentary evidence a slow address within 7 days from the date of

blication of this notice, failing which, it shall be

esumed that the said Property in entirely is free

cumbrances etc. Sahil Virmani (Advocate

Add.: G-721, Karkardooma Court, Delhi Mob: 8929535407, 9643394303, 01143045407

Movable & immovable properties with

mmediate effect. Anybody dealing with

them in any manner shall do so at his

her own cost, risk & responsibility. My

clients shall be in no way responsible for

susing Finance Limited against said property is

firming Party) and ATS also executed on di

PUBLIC NOTICE To be known to all that I Anil Kuma Malik S/o Late. Sh. Bishamber Lal R/o A-2A/207, Janakpuri New Delhi - 110058 Mutateeowner/allottee of Flat No.A-2A 207, Janakpuri New Delhi 110058, ha applied for conversion of the aforesaid flat from leasehold to freehold vide application No. DDAHCA94615506 dated, 25-06-2023 in DDA, The original Demand Cum allotment letter and original DDA possession letter of the above flat have been lost an FIR on this effect has been lodged in the Police Station Crime branch Delhi vide L.R. NO. 862864/2023 dated 05-09-2023. Any person claiming any right interest having any objection or found in

possession of original documents

persons at above address/phone No.

7982123425 within in 15 days from

the date of publication of this notice

Sadan, New Delhi - 110023

The persons claiming any right, interest, objection with respect of this 0040687315-9 property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) Housing or Director (H) D- Block Third floor, Vikas

> acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals or Publications. We therefore recommend that readers before sending any monies or

MATIONAL SEEDS

सं.:- प्रज्ञा - 07/एन.एस.सी. : कोल/2023-24/ दिनांक : 05-49-2023 नोटिस e-Tender Notice for Hiring approx. 3000 sq.ft. – 4000 sq.ft. of Godown Space for Storage and Processing of Seeds, within the distance of approx. 10 – 15 KMs from Sainthia / Nalhati (Dist. Birbhum), West Bengal.

make necessary inquiries entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Mini Ratna Company) CIN No.U74899DL1963GOI003913 Salt Lake, Kolkata-700 091 Ph. 033-2367-1077 / 74,

For details, please visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice (Tender / Quotations). Online Bids for above tender must be

submitted at NSC e-Portal: https://indiaseeds.enivida.com latest by 15:00 Hrs. of 26-09-2023 Corrigendum / addendum, if any, shal only be published in NSC's website

PHANTOM DIGITAL EFFECTS LIMITED

CIN: L92100TN2016PLC103929

Registered Office :- 6th Floor, Tower B, Kosmo One Tech

Plot No.14, 3rd Main Road, Ambattur, Chennai, Tamilnadu 600058

Tel; 044-4384 6228, Email ID: cs@phantom-fx.com, Website www.phantomfx.com

NOTICE OF THE 07TH ANNUAL GENERAL MEETING. INFORMATION OF REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Seventh Annual General Meeting ("AGM") of PHANTOM DIGITAL EFFECTS

LIMITED (the "Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM')

on Wednesday, 27th day of September, 2023 at 3.30 p.m. (IST) in compliance with all the applicable provisions of

the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the general

circulars in respect of on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other

audio visual means (OAVM) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") from time to time to

transact the business listed in the Notice convening the AGM of the Company. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://www.evoting.nsdl.com/. Members participating in the meeting through

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent only by email to all those Members, whose email ids are registered with the Company/Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at https://phantomfx.com/, on the website of the E-voting Partner National Securities Depository Limited (NSDL) at

https://www.evoting.nsdl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing

Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on 20th September, 2023 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by NSDL. The voting rights of

members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the

cut-off date. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the

AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote

at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only. In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice,

but on or before the cut-off date for e-Voting, i.e., 20th September, 2023 such person may obtain the User ID and

The instructions for joining the 07th AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting

The remote e-voting period commences on 24th September, 2023 (10.00 A.M.) and ends on 26th September 2023, (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During the remote

e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or

The Company has appointed M. Sudhakar, Practicing Advocate, Chennai having Enrollment number: MS.3908/2021 to act as Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and voting during the AGM in a fair

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before/during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai — 400 013 or call on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact : Ms. Prajakta Pawle - 022 - 4886 7000

NOTICE is also hereby given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the provisions of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall

remain closed from Monday, September 25, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for

or casting vote through electronic means at the said AGM are provided in the Notice convening the AGM.

VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

Password from NSDL by e-mail request on evoting@nsdl.co.in for all future communication.

एन.एस.सी., कोलकाता

Whilst care is taken prior to

"IMPORTANT"

CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking

क्षेत्रीय प्रबंधक

RO: Block-AQ, Plot -12, Sector-5, E-mail: nsc.kolkata.ro@gmail.com

क्युबिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड रिज. कार्यालयः ४५६, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 CIN: L65993DL1990PLC040101, फ़ोनः 011-47057757, ईमेल आईडी: cubfinser@yahoo.com

सुचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के शेयरधारकों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो साधन (वीसी/ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से,कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") के सामान्य परिपत्र संख्य 14/2020, 17/2020,20/2020 और 10/2022 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 28 दिसंबर 2022. क्रमशः और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी सर्कुलर") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में, किसी सामान्य

स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बैठक आयोजित की जाएगी। 33वीं एजीएम की सचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण सहित वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। कट ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2023 को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइजेशन फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य,सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई—वोटिंग") के माध्यम से 33वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार सामान्य और विशेष पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से बैठक व संबंध में, हम शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित करना चाहते हैं:

क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित किये गए अनुसार कार्यवाही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपर्न (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 44 के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के अनुसार के माध्यम से किय

i) कट—ऑफ तारीख होने के कारण 21 सितंबर, 2023 को शेयर रखने वाले शेयरधारक, रिमोट ई—वोटिंग अभ्यास भाग ले सकते हैं। एजीएम बलाने का नोटिस उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है जिनके पास 21* सितंबर, 2023 तक शेयर हैं। उक्त एजीएम आयोजित करने का नोटिस उन लोगों को ईमेल के जरिए भेजा जाएग जो 1 सितंबर, 2023 के बाद शेयरधारक बने हैं और जिनके पास शेयर 21* सितंबर, 2023 तक हैं और जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com या beetalrta@gmail.com अथवा cubfinser@yahoo.com पर अपने फोलियो नंबर/डीपीआईडी और

क्लाइंट आईडी का उल्लेख कर अनुरोध भेजकर भी लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वोट डालने के तरीके का विवरण एजीएम के नोटिस में उल्लिखित है जिसे कंपनी की वेबसाइट www.cubical90.com पर भी प्रदर्शित किया गया है और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज

लिमिटेड की वेबसाइट , https://www.evotingindia-com पर पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग 25 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और केवल 27 सितंबर, 2023 को 5:00 अपराह

तभी तक उपलब्ध रहेगा और उसके बाद उपलब्ध नहीं होगा। सदस्य ध्यान दें किः i) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 27 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद अक्षर

कर दिया जाएगा। ii) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। iii) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जो सदस्य पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे बैठव में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। iv) वह व्यक्ति जिसका नाम कर ऑफ तिथि 21'सितंबर, 2023 को सदस्य के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिक के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह एजीएम में ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण / शिकायत के मामले में, शेयरधारक श्री भावेंद्र झा, वरिष्ठ प्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई

दिल्ली-110062, फोन नंबर: 011-29961281, ई-मेल: beetalrta@gmail.com से संपर्क कर सकते हैं य सीडीएसएल ई-वोटिंग टीम को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं। श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग /ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ज) कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आप ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल देते हैं, तो आप अपना वोट संशोधित एजीएम में रिमोट ई−वोटिंग ∕ ई−वोटिंग के समेकित परिणाम, यदि कोई हों, जो एजीएम बैठक में लिए जा सकते है

की घोषणा कंपनी द्वारा एजीएम के 48 घंटे के भीतर की जाएगी और कंपनी और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइटो पर प्रदर्शित की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।) जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके पंजीकत कर लें

कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की

. स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति),आधार(आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति),जैसे आवश्यक विवरण

cubfinser@yahoo.com/beetalrta@gmail.com को ईमेल द्वारा प्रदान करें। डीभैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल–16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन प्रति) cubfinser@yahoo.com/beetalrta@gmail.com पर प्रदान करें या आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपनी ईमेल आईडी

कृते क्यूबिकल फाइबेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 05.09.2023

पंजीकृत कर सकते हैं।

अश्वनी कुमार गुप्त (प्रबंध निदेशक)

लॉयड रॉकफाइबर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 2, पुंजसंस परिसर, कालकाजी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110019 दूरभाष; 011-26462157, ई-मेल: punjgpl3@gmail.com सीआईएन: U20293DL1989PLC218564

34वीं वार्षिक आम बैठक की सचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी तदुद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को संचालित करने के लिए लॉयड रॉकफाइबर लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 30 सितंबर 2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्लॉट नंबर 2, पुंजसंस प्रीमिसेज, कालकाजी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110019 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

जनसता

वर्ष 2022–2023 के लिए 34वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकत हैं, जब तक कि सदस्य ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अपना निवेदन पंजीकृत न किया हो तथा अनुमत मोड में भौतिक प्रतियों में अन्य सदस्यों को

शेयरधारकों को 34वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोत डालने की सविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं की सविधा के लिए सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') के साथ एक व्यवस्था की है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के अनुसार विवरण यहां दिया गया है:

।. नोटिस भेजने की समाप्ति तिथिः 5 सितंबर, 2023. 2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शुरू होने की तिथि और समयः 27 सितंबर, 2023 प्रातः 09.00 बजे 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान समाप्त होने की तिथि और समयः 29 सितंबर, 2023 शाम 5.00 बजे 4. 29 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी

5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 23 सितंबर . सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य

. जिन व्यक्तियों का नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। . एजीएम के समय बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक

से बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। . कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर हासिल करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 25 अगस्त, 2023 तक शेयर रखता है, वह www.evotingin

dia.com.in या जारीकर्ता/आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है 10. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देश के लिए शेयरधारक 34वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, शेयरधारक www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा E-Voting User Manual for shareholders का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें

> लॉयड रॉकफाइबर लिमिटेड के लिए गौरवपुंज

डीआईएन नंबर 00822420 10, पृथ्वी राज रोड, दिल्ली-110011

MODI NATURALS LIMITED

Regd. Off.: 405, Deepali Building, 92, Nehru Place, New Delhi-110019 Corporate Off.: D-185 /1B, 2nd Floor, Okhla Phase-I, New Delhi-110020 Phone: 011-41889999, Email: investors@modinaturals.org Website: www.modinaturals.com, (CIN: L15142DL1974PLC007349)

Shareholders may note that the 49th Annual General Meeting (AGM) of Modi Naturals Limited ("the Company") will be held over Video Conference("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility on Saturday, 30th September, 2023 at 2:30 P.M IST in compliance with General Circular No.02/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Manner of registering/updating email addresses:

(i) Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their

depository participants.

(ii) Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to Registrar and Transfer Agent of the Company at admin@skylinerta.com, or to the Company at: investors@modinaturals.org, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the Member, selfattested copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) as proof of address

The notice of the 49th AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will also be made available on the Company's website at www.modinaturals.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice

laws on their registered email addresses on or before 08th September 2023. Members are requested to update their email addresses by 21st September 2023.

The 49th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable

After successful registration of the email address, the Members of the Company as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 can write to Company or RTA to receive a soft copy of the AGM Notice along with the Annual Report and Voting instructions. In case of any queries, Members are requested to write to the RTA at: admin@skylinerta.com or to the Company at investors@modinaturals.org. This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the

Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI. For Modi Naturals Limited

Akshay Modi Jt. Managing Director DIN: 03341142

Date: 05 September 2023

17-07-2023

बकाया राशि

₹ 12,41,266/- दिनांक

13-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

17-07-2023

बकाया राशि

₹ 15,09,253/- दिनांक

12-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

17-07-2023

बकाया राशि

₹ 15,01,517/- दिनांक

12-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

17-07-2023

बकाया राशि

₹ 14,34,703/- दिनांक

12-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

11-07-2023

बकाया राशि

17-07-2023

बकाया राशि

Place: New Delhi

6 सितंबर, 2023

'IMPORTANT' Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

सिक्योर्ड आस्तियों

का विवरण

गज, अर्थात 83.61 वर्ग मी., खसरा नं. 573, गाँव

चिपियाना बुजुर्ग परगना और तहसील दादरी जिला

गौतमबुद्ध नगर (यूपी) में स्थित, चौहद्दी : पूरब में -

अन्य का प्लॉट, पश्चिम में – 20 फीट, चौड़ी सडक,

उत्तर में – अन्य का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य का

(1) रिहायशी खाली प्लॉट नं. 188-ए, क्षेत्रफल 50

वर्ग गज अर्थात 41.81 वर्ग मी., खसरा नं. 7 में से,

बुज नगरी, ग्राम-सद्दीकनगर क्षेत्र में, परगना-लोनी,

तहसील एवं जिला–गाजियाबाद, उ.प्र., में स्थित,

चौहद्दी : पुरब में — प्लॉट नं. 87, पश्चिम में — 18

फीट चौड़ाँ रास्ता, उत्तर में – प्लॉट नं. 177, नेहा,

(2) रिहायशी खाली प्लॉट नं. 188-बी. क्षेत्रफल 50

वर्ग गज अर्थात 41.81 वर्ग मी., खसरा नं. 7 मिन में

से, बूज नगरी, ग्राम-सदीकनगर क्षेत्र में

परगना-लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.

प्र., में स्थित, चौहदी : पुरब में — अन्य का प्लॉट,

पश्चिम में – 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में – अन्य

निर्मित तुतीय तल, (पीछे की तरफ का हिस्सा)

क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज अर्थात 43.89 वर्ग मी.

लगभग, छत के स्तर तक, बिना छत के अधिकार के

संपत्ति सं. 1270 / 2 का हिस्सा, गली नं. 10, खसरा

नंबर 93 में से, गोविंदपुरी की आबादी में कालका जी,

मकान नं. 1079-डी, पश्चिम में - मकान नं.

1079-ए, उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में -

ऊपरी भूतल, (पीछे की तरफ) बिना छत के अधिकार

के, सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-100 में से, क्षेत्रफल 40 वर्ग

गज, 100 वर्ग गज में से, खसरा नं. 56 / 22 में से,

गाँव हरताल के क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे ओम विहार

कहते है, ब्लॉक-ए, फेज-V, उत्तम नगर, नई

दिल्ली-110059 में स्थित, चौहद्दी : पूरव में - 10

फीट चौडी गली, पश्चिम में - 20 फीट चौडी, रोड

उत्तर में – प्लॉट नं. 98 और 99, दक्षिण में – प्लॉट

रिहायशी निर्मित प्रथम तल भूमि क्षेत्रफल 70 वर्ग मी.

छत के स्तर तक, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति

नं. सी-12 / 123 पर निर्मित, प्लॉट नं. 123, ब्लॉक

सी-12, रिहायशी कॉलोनी के लेआउट प्लान में,

यमुना विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 में

स्थित, चौहद्दी : पूरब में - संपत्ति नं. सी-12/122,

पश्चिम में – संपत्ति नं. सी–12 / 124, उत्तर में – 5

प्रा. नं. ए-2 का हिस्सा, ऊपरी भूतल, दक्षिण मुखी

(बिना छत के अधिकार के) कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्ग.

गज, निर्मित खसरा नं. 298 / 14 / 2 मिन, क्षेत्रफल

350 वर्ग गज में से, लाल डोरा की विस्तारित आबादी

में, ग्राम घिटोरनी, तहसील वसंत विहार, नई

दिल्ली-110030 में स्थित, चौहदी : पूरब में - 15

फीट, रोड़ पश्चिम में – अन्य यूनिट, उत्तर में – अन्य

फ्री होल्ड रिहायशी मकान नगर पालिका नं. 213,

क्षेत्रफल 204 वर्ग गज अर्थात 170.62 वर्ग मी., जोकि

मोहल्ला डबरिया, पिलखुवा परगना डासना तहसील

हापुड जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, चौहदी

पूरब में - 20 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम में - राजेंद्र

की संपत्ति, उत्तर में - 10 फीट चौडी रोड, दक्षिण में

प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 4 मारला अर्थात 125 वर्ग गज,

म्यु नं. 136 में से, किला नं. 2 (7-10) जोकि वाका

मौजा पलवल (राजीव नगर) तहसील और जिला

पलवल, हरियाणा में स्थित, 25ft. X 45ft, चौहदी:

पुरब में - एन / ए. पश्चिम में - 15 फीट चौडी

सडक, उत्तर में – दीगर की संपत्ति, दक्षिण में -

सम्पत्ति क्षेत्रफल 01 कनाल, खेवत / खाता नं.

272 / 286 म्यु नं. 56, किला नं. 2/2(3-8), 3(8-0)

गाँव फुलवाडी तहसील और जिला पलवल, हरियाणा

में स्थित, चौहद्दी : पुरब में - एन / ए, पश्चिम में -

सम्पत्ति क्षेत्रफल 450 वर्ग गज, खेवत नं. 125 / 111

का भाग, खतौनी नं. 183, मुस्तकिल नं. 45, किला नं.

. सम्पत्ति 🖊 प्लॉट क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खेवत 🖊

एन / ए, उत्तर में – एन / ए, दक्षिण में – एन / ए

संपत्ति का मार्ग, दक्षिण में - 20 फीट रोड

- 6 फीट चौडी रोड

मीटर चौडी रोड, दक्षिण में - 5 मीटर चौडी रोड

फ्लैट प्रवेश / सामने की ओर फ्लैट / सड़क

नई दिल्ली-110019 में स्थित, चौहद्दी : पूरव में -

दक्षिण में - क्सुम देवी, प्लॉट नं. 188-बी

का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य का प्लॉट

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड 418, चतुर्थ तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर-2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली 110034 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेंसी एक्ट) 2002

के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में का आधिपत्य ले लिया जायेगा और वरण निम्नानुसार है:—

13-07-2023

बकाया राशि

₹ 21.16.458/- दिनांक

11-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

13-07-2023

बकाया राशि

मांग सूचना की तारीख

11-07-2023

बकाया राशि

₹ 23.83.465/- दिनांक

11-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

17-07-2023

बकाया राशि

₹ 15,90,836/- दिनांक

12-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

17-07-2023

बकाया राशि

हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दशायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं व धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनव कब्जा सूचना / ई—नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विव							
क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम/ एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	f				
	श्री उस्मान खान और नजमा खान, <u>दोनों</u>: मकान नं. 1024 / 5 गली नं. 13, पीपल वाली गली, पटेल नगर, गुड़गांव 122001	13-07-2023 बकाया राशि	संपत्ति / मकान / खसरा नं. 445 / हिदायतपुर छावन तहसील एवं जि				
	खाता नं. DL/BDP/BDRP/A000000117 &	₹ 21,52,588/- दिनांक	चेत्राल ५५ ।ज				

खाता नं. DL/BDP/BDRP/A000000117 & 13-07-2023 तक + ब्याज DL/BDP/BDRP/A000000877 एवं कानूनी प्रभार इत्यादि ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023 श्री रिदम सचदेवा और श्रीमती पूनम सचदेवा मांग सूचना की तारीख दोनोः न्यू टी ब्लॉक—79, शुक्कर[®]बाजार, वर्मा प्रॉपर्टी, उत्तम नगर, दिल्ली —110059 13-07-2023

बकाया राशि ₹ 19,29,951/- दिनांक खाता नं. DL/DEL/DLHI/A000001325 11-07-2023 तक + ब्याज ऋण खाते को एनपीए घोषित करने एवं कानुनी प्रभार इत्यादि की तिथि 30-06-2023

मांग सूचना की तारीख श्री सुमित कुमार, श्रीमती पूजा जुनेजा और श्री **सतीश कुमार, <u>सभीः</u> मकान ने. 2−ए∕48 एसएफ** रमेश नगर दिल्ली -110015

खाता नं. DL/DEL/DLHI/A000001553 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023 श्रीमती किरण और श्री दिनेश कुमार, <u>दोनों:</u> ए 53 राणा जी एन्क्लेव नांगलोई देवरी नजफगढ रोड

खान चौक के पास. नजफगढ़, दिल्ली, भारत -110043 ₹ 20,17,363/- दिनांक खाता नं. DL/DEL/DLHI/A000001571 11-07-2023 तक + ब्याज ऋण खाते को एनपीए घोषित करने एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

की तिथि 30-06-2023 **श्री ओम प्रकाश और बिमला देवी, <u>दोनों:</u>** वी 119 राजेंद्र पार्क, सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पास, सेक्टर 105 गुड़गांव हरियाणा 122001

खाता नं. DL/BDP/BDRP/A000000320 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023

श्री सुशील कुमार वर्मा, श्रीमती नील बिपिरना और श्री सरजू सरन वर्मा, सभी: मकान नं. 302 बी, विपिन गार्डन, उत्तम नगर, ककरोला मोड के पास मोहन गार्डन, दिल्ली —110059

खाता नं. DL/DEL/DLHI/A000000435 & DL/DEL/DLHI/A000001373

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023 श्री अमित कुमार और श्रीमती गुड़िया अमित कुमार मांग सूचना की तारीख **दोनों:** मकाने नं. 298, सेक्टर—2, चिरंजीव विहार

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201004 खाता नं. DL/DEL/DLHI/A000000923

₹ 15,79,618/- दिनांक 12-07-2023 तक + ब्याज की तिथि 30-06-2023 एवं कानूनी प्रमार इत्यादि

श्री चंदर पाल और श्रीमती पिंकी, दोनों: मकान न मांग सूचना की तारीख 1127, नई बस्ती, इस्लामाबाद, पलवल, हरियाण 13-07-2023 -121102 बकाया राशि

खाता नं. GR/SOH/RAJI/A000000013 ₹ 16,69,850/- दिनांक ऋण खाते को एनपीए घोषित करने 11-07-2023 तक + ब्याज की तिथि 30-06-2023 एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

श्री साहब सिंह और बबीता बुद्ध प्रकाश, दोनों मांग सूचना की तारीख फ्लैट नं. एम 9 बी. प्लॉट नं. 41. शालीमार गार्डन 17-07-2023

एक्सटेंशन 1, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश —201005 बकाया राशि ₹ 16,20,707/- दिनांक खाता नं. DL/KRB/KRBH/A000000440 & 12-07-2023 तक + ब्याज CO/CPC/CPOF/A000000233 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

एवं कानूनी प्रभार इत्यादि की तिथि 30-06-2023 10 श्री सुनील और श्री योगेश, <u>दोनों</u>: मकान नं. 304, मांग सूचना की तारीख

अलीमुदिनपुर गांव, फर्रुखनगर, गुड़गांव, भारत -11-07-2023 बकाया राशि ₹ 21,28,464/- दिनांक

खाता नं. DL/BDP/BDRP/A000000458 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने 11-07-2023 तक + ब्याज की तिथि 30-06-2023 एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

श्रीमती सुनीता और श्री मनोज कुमार, <u>दोनों:</u> मकान मांग सूचना की तारीख नं. – 133 ब्लॉक –12 दक्षिण पुरी एक्सटेंशन डॉ 17-07-2023 अम्बेडकर नगर, दिल्ली, 110062 बकाया राशि ₹ 14,76,506/- दिनांक खाता नं. DL/DEL/DWND/A00000647 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने 12-07-2023 तक + ब्याज

एवं कानूनी प्रमार इत्यादि

सिक्योर्ड आस्तियों

/प्लॉट एरिया क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, /2 मिन में शामिल, वाका मोजा नी गुरुग्राम/पटेल नगर गुरूग्राम तहसील एवं जिला गुरूग्राम हरियाणा में स्थित चौहद्दी : पूरब में – 19 फीट 3 इंच, सूरजपाल का मकान, पश्चिम में - 19 फीट 3 इंच, 20 फीट चौडा रास्ता, उत्तर में - 28 फीट मकान नजीर, दक्षिण में – 28 फीट रफीकन का मकान

का विवरण

निर्मित ऊपरी भूतल आर.एच.एस बिना छत / टैरेस अधिकार के, क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज, निर्मित संपत्ति सं. 43 में से, खसरा नं. 43 / 24, हस्तसाल गांव के क्षेत्र, कॉलोनी जिसे अब मोहन गार्डन कहते है, ब्लॉक – एल1, वर्तमान में जिसे एल—1ए ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 मे रिथत, चौहदी: पुरब में - गली, पश्चिम में - सडक

18 फीट चौड़ी, उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में द्वितीय तल, बिना छत / टैरेस अधिकार के, फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति नं. 2-ए/48 में से, भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, एक मंजिला, रमेश नगर नई दिल्ली में स्थित, चौहदी : पूरब में - गली, पश्चिम में

- गली, उत्तर में — सम्पत्ति नं. 2—ए / 47, दक्षिण में - सम्पत्ति नं. २–ए / ४९ प्लॉट नं. 28-ए / 1 और 28-ए, क्षेत्रफल 53 वर्ग

गज (अर्थात 44.31 वर्ग मी.), खसरा नं. 34 / 16, गाँव नांगली सकरावती, राणा जी एन्क्लेव के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी में, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 में स्थित, चौहदी : पुरब में - अन्य का प्लॉट, पश्चिम में - 8 फीट चौडी गली, उत्तर में – 20 फीट चौडी रोड. दक्षिण में — अन्य का प्लॉट

मकान नं. 119-बी मिन, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, कवर्ड क्षेत्रफल 340 वर्ग फीट, खसरा नं. 6001/110 शामिल, वाका सिवाना मोजा गुरुग्राम, और आबादी राजिंदरा पार्क में, नगर निगम गुरूग्राम, तहसील एवं

जिला गुरूग्राम हरियाणा में स्थित, चौहदी : पुरब में -गंगा सहाय का मकान, पश्चिम में - कन्हैया लाल का मकान, उत्तर में — 12 फीट चौडी गली, दक्षिण में – अनीता देवी का मकान नं. 119 बी मिन सम्पत्ति प्लॉट नं. 302-बी, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज खसरा नं. 146/2/1 में से, गाँव नवादा के रेवेन्यू 18 श्री तरुण कुमार, श्रीमती गजेंद्री देवी और श्री

ईस्टेट में, आबादी जिसे अब विपिन गार्डन कहते है ककरोला मोड, नई दिल्ली में स्थित, चौहदी : पूरब में – रोड, पश्चिम में – लेन, उत्तर में – प्लॉर्ट नं. 302-ए, दक्षिण में - प्लॉट नं. 302-सी

रिहायशी फ्लैट नं. यूजी–03, ऊपरी भूतल, बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक–ए, क्षेत्रफल 85.55 वर्ग गज, अर्थात 71.52 वर्ग मी., खसरा नं. 13 में से, अनमोल रेसीडेंसी, गाँव गिरधरपुर सुनारसी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर उ.प्र. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – अन्य का प्लॉट, पश्चिम में –

बिल्डिंग ब्लॉक-बी, उत्तर में – रास्ता 25 फीट, दक्षिण में - सीदियाँ

सम्पत्ति क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, खसरा नं. 165 किला नं. 6/1/1 (5–7), 5 कनाल 7 मरला हिस्सा 4ध107 में शामिल है कुल भूमि 4 मरला, वाका मोजा पलवल (समशाबाद), पलवल, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा में स्थित, चौहदी : पूरब में - 11 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – खाली प्लॉट, उत्तर में - शेर सिंह का माकन, दक्षिण में — विद्या का मकान | 21 | श्री विक्रम रिचपाल, श्रीमती नीत् विक्रम और श्री

रिहायशी फ्लैट नं. एम-9बी, ऊपरी भूतल, टाईप-एमआईजी, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट, ''बाँके बिहारी कुंज'', प्लॉट नं. 41, शालीमार गार्डन एक्स 1, गाँव पसौंडा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, (उ.प्र.) में स्थित, चौहद्दी

पुरब में – फ्लैट नं. एम–7बी (ऊपरी भूतल), पश्चिम में – फ्लैट नं. एम–11बी (ऊपरी भूतल), उत्तर में 80 फीट चौड़ा रोड़, दक्षिण में - फ्लैट नं, एम-8बी (ऊपरी भूतल) संपत्ति / प्लॉट / मकान, क्षेत्रफल 384 वर्ग गज, खेवत / खाता सं. 290 / 334 में से, मुस्तिल नं. 4, किला नं. 14/3/2(1-12), किटा 1, रकबा 1 कनाल 12, मरला 114/288 की विस्तारित सीमा तक की हिस्सेदारी जो 0 कनाल, 12 मरला, 6

सरसाई में आता है, ग्राम अलीमुदीनपुर, तहसील फर्रुखनगर, जिला गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित, 23 श्री शुमम पांडे, श्री अनूप कुमार पांडे और श्रीमती चौहद्दी : पुरब में - 11 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम में रामकिशन की संपत्ति, उत्तर में – मनफूल की संपत्ति, दक्षिण में - 11 फीट चौड़ी रोड़ रिहायशी फ्लैट नं. एफ-2, प्रथम तल, एम.आई.जी (पीछे की तरफ) बिना छत के अधिकार के, सुपर कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्ग मी., प्लॉट नं. 174 पर, खसरा नं. 1527 का भाग, बालाजी एनक्लेव हडबस्त गाँव रईसपुर, परगना डासना तहसील और जिला

गाजियाबाद में रिथत, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं.

संपत्ति, दक्षिण में – फ्लैट नं. – एफ-1

175, पश्चिम में — प्लॉट नं. 173. उत्तर में — अन्य की वहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें

एनपीए की तारीख 12 श्री चंद्रपाल और श्रीमती शशि देवी, दोनों: प्लॉट नं गांव शाहबेरी, पुलियामोड, मस्जिद स्ट्रीट के पास, सहेरी, ग्रेटर नोएडा जिला—गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201306 खाता नं. DL/MNR/MVHR/A000000094

करायी गयी तो उक्त अधिनियम की 13 श्री नरेंद्र सिंह और श्रीमती कुसूम देवी, दोनों मकान नं. 188 गली नं. 4, दीनदयालपुर नंदग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत — 201001 खाता नं. DL/MTG/MTNG/A000000049

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

की तिथि 30-06-2023

दिल्ली— 110019 खाता नं. DL/OKH/OKHL/A000000115 & CO/CPC/CPOF/A000000242 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

ए—33—बी ब्लॉक—ए, ओल्ड स्लम क्वाटर्स पश्चिम परी दिल्ली —110063 खाता नं. DL/OKH/OKHL/A000000294

की तिथि 30-06-2023

मांग सूचना की तारीख 16 श्री उम्मेद अली और श्रीमती अपशाना, <u>दोनों:</u> र -12 / 337, पहली मंजिल, यमुना विहार, दिल्ली खाता नं. DL/OKH/OKHL/A000000312 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

श्रीमती सुमन और श्री दयाल सिंह भंडारी, <u>दोनों:</u> मांग सूचना की तारीख ए —2, ऊपरी भूतल, खसरा नं. 298 / 14 / 2 मिन गांव घिटोरनी, तहसील वसंत विहार, नई दिल्ली

खाता नं. DL/RJP/RJPC/A000000004 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023

दीपक कुमार, <u>सभी</u>: 169, महला सुखलान पिलखआ गाजियाबाद - 245304 खाता नं. DL/MNR/NANR/A00000015 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

की तिथि 30-06-2023 श्रीमती सुशीला देवी और श्री प्रदीप कुमार, दोनों मकान नं. जी 284, त्रिखा कॉलोनी, फरीदाबाद हरियाणा. भारत - 121004

खाता नं. HR/GGN/FRBD/A000000950 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023 20 श्री धर्मेंद्र गिर्राज सिंह और श्रीमती सुनीता धर्मेंदर

दोनों: मकान नं. 33 पथ वाली देवी फुलवारी हरियाणा, भारत 121102 खाता नं. HR/GGN/FRBD/A000000868 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023

बीरसिंह रिचपाल, सभीः मकान नं. 810, नीमका सेक्टर 72. फरीदाबाद, हरियाणा, भारत — 121004 खाता नं. HR/GGN/FRBD/A000000794 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023

22 श्री श्याम सिंह और श्रीमती किशन वती, दोनों: 13 विल रायडस्का, पलवल, हरियाणा — 121105 खाता नं. HR/GGN/FRBD/A000000698 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 30-06-2023

खाता नं. HR/GGN/FRBD/A000000562

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

की तिथि 30-06-2023

दिनांक : 05.09.2023, स्थान : दिल्ली

मांग सूचना की तारीख अर्चना मिश्रा, सभी: मकान नं. 4410 गली नं. 106 संजय एन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत

13-07-2023 बकाया राशि ₹ 15,74,948/- दिनांक 12-07-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति / प्लॉट क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (पश्चिमी भाग) एमसीएफ नं. 12078ए / 1688, खसरा म्यु नं. 73 में से, किला नं. **17(4-17), 18 (3-8)** प्लॉट नं. 133,134,135,136 में से, संजय कॉलोनी-।।, सारण तहसील एवं जिला बडखल, हरियाणा में स्थित, चौहदी: पुरब में - शेष भाग, पश्चिम में - अन्य की

सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के

जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालायः 19 के. एम. हापुरु बुलन्दशहर रोड, पी. ओ. मुलीथी, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 87, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 सीआईएनः L17111UP1974PLC003979 ईमेल आईसी: cs_jpoly@Jindalgroup.com; वेक्साइट: www.jindalpoly.com टेलीफोन नंबर: 0124-6925100, 0124-6570325

49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, खाता बंदी एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जातौ कि **जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड** की 49वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुपालन में, 49वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 02:00 बजे होटल नटराज, काला आम, दिल्ली रोड, सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, **उत्तर प्रदेश 203 001** पर आयोजित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 101 और 136 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, सेबी सचीबद्धता विनियमनों के विनियम 36 और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 49वीं एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 उन सभी सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से ईमेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ 05 सितंबर, 2023 तक पंजीकत हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 49वीं एजीएम के नोटिस उन सभी सदस्यों को क्रियर के माध्यम से भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ 05 सितंबर, 2023 तक पंजीकत नहीं किए गये हैं।

सदस्यगण ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 49वीं एजीएम के नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.jindalpoly.com/download-reports, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.nseindia.com पर, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक"). सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद, तेलंगाना–500032 को लिखकर भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में पंजीकत करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के सह पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014

के नियम 20 के अनुसार, यथासंशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और इंस्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक-2 के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर 49वीं एजीएम के आयोजन स्थल पर रिमोट ई—वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसकी विस्तुत प्रक्रिया नोटिस के निर्देश भाग में प्रदान की गई है।

अंतिम तिथि अर्थात शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 तक भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारक

सदस्य, नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड से **रिमोट ई—वोटिंग या**

मतपत्र / मतदान पत्र के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार, 26 सितंबर 2023 (प्रातः 9:00 बजे) से गुरुवार, 28 सितंबर 2023 (सांय: 5:00 बजे) तक जारी रहेगी, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा

इसे तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल देगा, तो उसे बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग खुविधा के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी 49वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे 49वीं एजीएम के दौरान दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। वे सदस्य, जो 49वीं एजीएम में उपस्थित हैं लेकिन उन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट

नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे 49वीं एजीएम के दौरान **मतपत्र / मतदान पत्र** के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति 49वीं एजीएम नोटिस भेजने के बाद, लेकिन ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि यानी

शकवार, 22 सितंबर, 2023 से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, ऐसे सदस्य नोटिस के निर्देश भाग में दिए गए तरीके से अनुरोध मेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी द्वारा इस नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज और उनके भौतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निर्दिष्ट करने वाले व्याख्यात्मक विवरण निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और इस लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे cs_jpoly@jindalgroup.com पर ईमेल भेजकर प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए मांग करने का अनुरोध कर सकते हैं।

49वीं एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग या मतपत्र / मतदान पत्र के माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य https://e-voting.kfintech.com (केफिनटेक वेबसाइट) पर डाउनलोड किए गए अनुभाग में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या डी सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31—32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद 500–032 से संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर एक ईमेल भेजें या 1800 3094 001 पर कॉल करें।

एतदह्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सूचीकरण विनियमन के विनियम 42 के सहपठित नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर टांसफर खाते एजीएम और लाभांश के भगतान के लिए शनिवार, 23 तारीख से शकवार 29 सितंबर 2023 (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगे।

कंपनी का आईएसआईएन INE197D01010 है। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करवा लें।

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

> > वैशाली सिंह

कंपनी सविव

एसीएस: 15108

तय तिथि

07/09/2023

07/09/2023

08/09/2023

11/09/2023

11/09/2023

11/09/2023

12/09/2023

12/09/2023

12/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

15/09/2023

15/09/2023

15/09/2023

15/09/2023

15/09/2023

25/09/2023

26/09/2023

27/09/2023

26/09/2023

28/09/2023

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 05 सितंबर 2023

दक्षिण रेलवे

स्टोर्स नं. ई-17/2023 की आपूर्ति के लिये ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उनके लिये निम्न निविदायें आईआरईपीएस की वेबसाईट पर प्रकाशित है। फर्मों से आग्रह है कि https://www.ireps.gov.iniogin>E.Tender>goods&services (नई) पर लॉग इन करें तथा इन निविदाओं के लिए कोट करें। इन निविदाओं के लिए मैनुअल कोटेशन पर विचार नहीं होगा। सभी निविदाओं के बंद होने का समय 14:30 बजे है।

क्रम सं.	निविदा सं.	विवरण
1	02235817	रबेप्राजोल, एसोमोप्राजोल
2	52235724	मॉडिफायड लोको साइड बफर एस्सी
3	11230367	सिंगल कोर ई-बीम ईरैडिएटेड क्रॉस लिंक केबल
4	04230960	एक्सेल बॉक्स पिवोट बुश
5	11230635	रिटर्न एयर फिल्टर
6	26233380A	ट्रैक्शन बार के लिए हाउसिंग
7	26230593	ब्लोअर कम्प्लीट
8	26233398	बुल गियर (72 टीथ)
9	82235252	केबल 12सी x 1.5 वर्ग एमएम
10	67235134	ब्रेक सिलेंडर 355
11	78236382	स्टेनलेस स्टील फुट स्टेप
12	78236040	रूफ माउन्टेड एसी की आपूर्ति
13	04230989	35 एमएम नान-एस्बेस्टस आधारित ऑर्गेनिक ब्रेक पैड
14	26232636	सिलिण्ड्रिकल रॉलर बीअरिंग
15	78235730	रूफ माउन्टेड एसी
16	26231158	इंड फ्रेम ड्राइविंग इंड एक्सी.
17	04231043A	फ्लेक्स बॉल केबल
18	04231045A	फ्लेक्स बॉल केबल लांग
19	26231074	प्राईमरी स्प्रिंग एंड एक्सल
20	04231044A	फ्लैक्स बॉल केबल
21	78235731	रूफ माउन्टेड एसी
22	04230945	ट्रैक्शन सेन्टर
23	52235838	ट्यूब्स एवं उपस्करों, सस्पेंशन बिअरिंग

18/09/2023 18/09/2023 25 केडब्ल्यू ब्रशलेस अल्टरनेटर 78235959 18/09/2023 78236194 200वीए, 750वी/415वी एसी 18/09/2023 ग्लूड इंस्युलेटेड रेल ज्वाइंट का निर्माण 03225138A 26 19/09/2023 एवं आपूर्ति 26230591 ब्लोअर कम्पलीट 27 19/09/2023 सिंगल फेज 200वीए, 750वी/415वी एसी 28 68236596 19/09/2023 इंटर कार गैंग वे 29 78236241 19/09/2023 78236386 एसएस आरएमपीयू का एक कोच सेट 20/09/2023 495-4ए क्विक ड्रॉ 31 78236392 20/09/2023 ग्लुईड इंस्युलेटेड रेल ज्वाइंट का निर्माण 32 03225139A 22/09/2023 तथा आपूर्ति बॉडी साइड एन्ट्रैन्स डोर का सेट 78236379

निम्न ई-बोली जीईएम वेबसाईट पर प्रकाशित है। फर्मों से आग्रह है कि www.gem.gov.in पर लॉगिन करें। तथा अधोलिखित ई-बोली के लिये कोट करें। मैन्युअल कोटेशनों पर विचार नहीं होगा।

लैथ मशीन

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

Follow us on : wtwitter.com/GMSRailway

www.readwhere.com

की तिथि 30-06-2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी अपने

बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने की अनमति नहीं दी जाएगी।

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. वे बैलट पेपर के माध्यम

निदेशक मंडल के आदेश र

(प्रबंध निदेशक स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 04.09.2023

> कर्जदार/गारन्टर के नाम/ मांग सूचना की तारीख मांग सूचना की तारीख फी होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 12, क्षेत्रफल 100 वर्ग

की तिथि 30-06-2023

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

14 श्री उमा शंकर, श्रीमती शहनाज और श्रीमती **ईश्वरी, <u>सभी</u>:** मकान नं. 1018, जी ⁄ एफ गली नं

गोविंदपुरी, कालकाजी नई दिल्ली, मंदिर,

की तिथि 30-06-2023 15 श्री विपुल और श्रीमती वर्षा, <u>दोनों:</u> मकान नं

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने

₹ 48,06,094/- दिनांक 10-07-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि की तिथि 30-06-2023

₹ 14.73.979/- दिनांक 12-07-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख 26-07-2023 बकाया राशि ₹ 10.83.857/- दिनांक 19-07-2023 तक + ब्याज

> एवं कानूनी प्रभार इत्यादि मांग सूचना की तारीख 26-07-2023 बकाया राशि

₹ 10,46,814/- दिनांक 19-07-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि मांग सूचना की तारीख

17-07-2023

बकाया राशि ₹ 14.08,132/- दिनांक 13-07-2023 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि मांग सूचना की तारीख 11-07-2023

16 मिन ईस्ट और मुस्तकिल नं. 45, किला नं. 25 / 1 बकाया राशि मिन उत्तरी पूरब जोकि नीमका तहसील तिगांव एवं ₹ 24,83,149/-जिला फरीदाबाद, हरियाणा में रिधत, चौहद्दी : पूरब दिनांक में - एन / ए. पश्चिम - एन / ए. उत्तर - एन / ए. 11-07-2023 तक + ब्याज दक्षिण – एन / ए एवं कानूनी प्रभार इत्यादि

मांग सूचना की तारीख

खाता नं. 41 / 56 का भाग, मुस्तकिल नं. 40, किला 17-07-2023 नं. 11(4–1) वाका मौज़ा रैदासका, तहसील एवं बकाया राशि जिला पलवल, हरियाणा में स्थित ₹ 11,72,426/- दिनांक 2. सम्पत्ति / प्लॉट क्षेत्रफल 144 वर्ग गज, खेवत / 13-07-2023 तक + ब्याज खाता नं. 41 / 56 का भाग, मुस्तकिल नं. 40, किला एवं कानूनी प्रभार इत्यादि नं. 11(4-1) वाका मौजा रैदासका, तहसील एवं

> जिला पलवल, हरियाणा में रिथत, चौहदी : पुरब में – एन / ए, पश्चिम – एन / ए, उत्तर – एन / ए, दक्षिण – एन / ए

संपत्ति. उत्तर में - अन्य की संपत्ति. दक्षिण में - 18

उक्त वर्णित ऋणियों ∕ जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

33

44230020

53235369

04230331

44230248

GEM / 2023 / B /

3756480

स्लैक एडजस्टर

ऑपरेशन थिएटर लाइट

डिस्ट्रब्यूशन वाल्व

शैंक विअर प्लेट